



February 05, 2025

Ref:- GH/2024-25/EXCH/111

The General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: 543654

Symbol: MEDANTA

Sub: Newspaper Publication - Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended December 31, 2024

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, the copies of Newspaper clippings of the Unaudited Financial Results of the Company, for the third quarter and nine months ended December 31, 2024, published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on Wednesday, February 05, 2025.


This is for your information and record.

Thanking You,

For Global Health Limited

Rahul Ranjan
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. A17035

Encl: a/a





Global Health Limited

CIN: L85110DL2004PLC128319

Regd. Office: Medanta Mediclinic, E-18, Defence Colony, New Delhi 110024, India
 Corp. Office: Medanta - The Medicity, Sector - 38, Gurugram, Haryana 122001, India
 Tel: +91 124 483 4060 | E-mail: compliance@medanta.org | Website: https://www.medanta.org

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2024

(₹ in Million except EPS)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Nine months period ended	Quarter ended
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Revenue from operations	9,434.36	27,610.68	8,364.54
2	Net profit for the period (before tax and exceptional items)	1,890.68	5,138.19	1,723.65
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	1,890.68	5,138.19	1,723.65
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	1,428.58	3,799.40	1,235.41
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,457.41	3,815.44	1,240.61
6	Paid up equity share capital	537.17	537.17	536.85
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)*			
8	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) -			
	Basic:	5.32	14.14	4.61
	Diluted:	5.32	14.14	4.60

* Reserves (excluding Revaluation Reserve) as on 31 March 2024 was ₹ 28,519.26 Mn.

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2024

(₹ in Million)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Nine months period ended	Quarter ended
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Revenue from operations	6,244.04	19,004.59	5,648.40
2	Net profit for the period (before tax and exceptional items)	1,323.10	4,056.62	1,208.72
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	1,323.10	4,056.62	1,208.72
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	993.05	3,000.55	873.44
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,019.89	3,015.51	877.72

Notes:

- These results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and accordingly approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 4 February 2025. The result have been subjected to the limited review by the statutory auditors of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated and standalone Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also available at the company's website https://www.medanta.org. The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.



By order of the Board
 for Global Health Limited
 Sd/-
Dr. Naresh Trehan
 Chairman and Managing Director

Place : Gurugram
 Date : 4 February 2025

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF SHREE KRISHNA INFRASTRUCTURE LIMITED

("SKILL" / "TARGET COMPANY" / "TC")
 (Corporate Identification No. L45201GJ1990PLC013979)
 Registered Office: 101, 1st Floor, 36, Shri Rang Residency, Vadia, Rajpipla, Narmada, Gujarat, 393145;
 Phone No.: +91-8849865932; Email id: info@skill.com; skill2007@gmail.com; Website: www.skill.com

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 15 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011
 This corrigendum to the detailed public statement is being issued by Navgant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Prashant Lakhani (hereinafter referred to as the "Acquirer") in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and the SEBI Observation Letter No. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR-2/P/OW/3402/2025 dated January 31, 2025 in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 28,60,000 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer have appeared in Financial Express - English Daily (all editions), Jansatta - Hindi Daily (all editions), Mumbai Lakshadweep - Marathi Daily (Mumbai edition) and Gujarati Mitra - Gujarati Daily - (Narmada Edition) on 25th November, 2024.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO OFFER:

1. Update in the schedule of Activities: The original and revised schedule of activities is set forth as below:

Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	14.11.2024	Thursday	14.11.2024	Thursday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	25.11.2024	Monday	25.11.2024	Monday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	25.11.2024	Monday	25.11.2024	Monday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	02.12.2024	Monday	02.12.2024	Monday
Last date for a Competing offer	16.12.2024	Monday	16.12.2024	Monday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	23.12.2024	Monday	31.01.2025	Friday
Identified date*	26.12.2024	Thursday	04.02.2025	Tuesday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	02.01.2025	Thursday	11.02.2025	Tuesday
Last date for revising the Offer Price	07.01.2025	Tuesday	14.02.2025	Friday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	07.01.2025	Tuesday	14.02.2025	Friday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	08.01.2025	Wednesday	17.02.2025	Monday
Date of Opening of the Offer	09.01.2025	Thursday	18.02.2025	Tuesday
Date of Closure of the Offer	22.01.2025	Wednesday	05.03.2025	Wednesday
Post Offer Advertisement	29.01.2025	Wednesday	12.03.2025	Wednesday
Payment of consideration for the acquired shares	05.02.2025	Wednesday	20.03.2025	Thursday
Final report from Merchant Banker	12.02.2025	Wednesday	27.03.2025	Thursday

*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirer, Promoters / Sellers) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
 804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
 Tel No. +91-22-4120 4837 / 4973 5078
 Email id: navigant@navigantcorp.com
 Website: www.navigantcorp.com
 SEBI Registration No: INM000012243
 Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai
 Date: February 04, 2025

Vaibhav Global Limited
 Regd. Off: E-69, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur- 302022
 Phone: 91-141-2770648; CIN: L36911RJ1989PLC004945
 Email: investor_relations@vaibhavglobal.com; Website: www.vaibhavglobal.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING

1. Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), as amended, and other applicable laws and regulation, Vaibhav Global Limited ("the Company") is seeking consent of its members for the resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated 29th January, 2025 ("Notice").

2. General Circular Nos. 14/2020 dated 08.04.2020, 17/2020 dated 13.04.2020, 22/2020 dated 15.06.2020, 33/2020 dated 28.09.2020, 39/2020 dated 31.12.2020, 10/2021 dated 23.06.2021, 20/2021 dated 08.12.2021, 3/2022 dated 05.05.2022, 11/2022 dated 28.12.2022, 09/2023 dated 25.09.2023 and 09/2024 dated 19.09.2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") has allowed the Companies, to obtain approval of shareholders by postal ballot through e-voting only, dispensing with the requirement of obtaining the said approval by sending physical notices and posting of ballots by shareholders. Accordingly, the Company has sent postal ballot notice by email to the members on Tuesday, 04th February, 2025 whose name appeared in the register of member /register of beneficial owners as on Friday, 31st January, 2025.

3. In view of these MCA circulars and in compliance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Act, read with the rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the facility to the Members to exercise the right to vote by electronic means (e-voting) only and the business will be transacted through e-voting platform provided by KFin Technologies Limited (KFinTech).

4. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company, subject to the provisions of Companies Act, 2013, as on cut-off date i.e. 31st January, 2025. A person who is not a Member on the relevant cut-off date should treat this notice for information purpose only.

5. The e-voting period will commence on Thursday, 06th February, 2025 at 09.00 a.m. (IST) and will end on Friday, 07th March, 2025 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by KFinTech thereafter. Once the vote is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The Detailed procedure/ instructions for e-voting are contained in the Notice.

6. Shareholders who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of Equity Shares held in electronic form with the depository through their depository participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana India - 500 032.

7. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting User manual for Shareholders available at the "Downloads" section of https://evoting.kfintech.com or contact Mrs. Rajitha Cholleti, Vice President at KFin Technologies Limited (KFinTech), Unit: Vaibhav Global Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500032 or at einward.nis@kfintech.com and evoting@kfintech.com or call KFin's Toll free No. 1-800-3454-001 for any further clarifications.

8. The results of the Postal Ballot will be announced within 2 working days from the closure of e-voting. The results, along with Scrutinizer Report, will be displayed at the Registered office of the Company, website of the Company i.e. www.vaibhavglobal.com and on the e-voting website of KFinTech i.e. https://evoting.kfintech.com. The results will also be intimated simultaneously to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

For Vaibhav Global Limited
 Sd/-
Yashasvi Pareek (Company Secretary)
 ACS: 39220

Place: Jaipur
 Date: 4th February, 2025

ASBA # Simple, Safe, Smart way of Application!!!

Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA.

Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors and Non - Institutional Investor applying for amount upto ₹ 5,00,000/-, applying through Registered Brokers, DPs and RTAs. UPI Bidder also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020, issued by the Central Board of Direct Taxes and the subsequent press releases, including press releases dated June 25, 2021 and September 17, 2021 and CBDT circular no.7 of 2022, dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by (i) Retail Individual Investors in the Retail Portion; (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to ₹ 500,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" on page 345 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA bid-cum-application forms can be downloaded from the websites of the Stock Exchanges and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFPI=yes&ntmId=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFPI=yes&ntmId=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. UPI Bidders Bidding using the UPI mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. Axis Bank Limited and ICICI Bank Limited have been appointed as Sponsor Banks for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018 as amended. For Offer related queries, please contact the BRLMs on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and mail id: ipo.upi@npci.org.in.

THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY WILL GET LISTED ON MAIN BOARD PLATFORM OF BSE AND NSE

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, bank strike or similar unforeseen circumstances, our Company in consultation with the BRLMs, may for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs"), the Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

The Offer is being made in terms of Regulation 31 of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process and is in compliance with Regulation 61(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein in terms of Regulation 32(1) of the SEBI ICDR Regulations, not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), and such portion, the "QIB Portion" provided that our Company in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which at least one-third shall be available for allocation to domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares each shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares each available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 20 million and up to ₹ 1.00 million; and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 1.00 million provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIBs") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective bank accounts (including UPI ID for UPI Bidders using UPI Mechanism) (as defined hereinafter) in which the Bid amount will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Banks, as applicable, to participate in the Offer. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion of the Offer through the ASBA process. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price. For details, see "Offer Procedure" beginning on page 345 of the RHP.

Bidders/Applicants should ensure that DP ID, PAN, Client ID and UPI ID for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID, Client ID and UPI ID for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorised the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/Applicants are advised

to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk. Investors must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021, read with press release dated September 17, 2021 and CBDT circular no.7 of 2022, dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

Contents of the Memorandum of Association of our Company as regards its objects: For information on the main objects of our Company, please see the section "History and Certain Corporate Matters" on page 172 of the RHP. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 381 of the RHP.

Liability of the members of our Company: Limited by shares

Amount of share capital of our Company and Capital structure: As on the date of the RHP, the authorised share capital of the Company is ₹ 120,500,000 divided into 120,500,000 Equity Shares of face value ₹ 1 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is ₹ 114,406,800 divided into 114,406,800 Equity Shares of face value ₹ 1 each. For details, please see the section titled "Capital Structure" on page 79 of the RHP.

Names of signatories to the Memorandum of Association of our Company and the number of Equity Shares subscribed by them: The initial signatories to the Memorandum of Association of our Company are Anil Kumar Singh and Krishnaswamy Vijay. For details of the share capital history of our Company, please see the section titled "Capital Structure" on page 79 of the RHP.

Listing: The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Stock Exchanges. Our Company has received "in-principle" approvals from BSE and NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to their letters each dated November 27, 2024. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A copy of the Red Herring Prospectus and the Prospectus has been filed with the RoC in accordance with Sections 26(4) and 32 of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/Offer Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" beginning on page 381 of the RHP.

Disclaimer Clause of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities or the offer document. The investors are advised to refer to page 317 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of SEBI.

Disclaimer Clause of BSE : It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Red Herring Prospectus has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investors are advised to refer to page 319 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of BSE Limited.

Disclaimer Clause of NSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 319 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

General Risk: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 27 of the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS				REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
					Shruti Vishwanath Shetty 253/1, 11th Main Road, 3rd Phase, Peenya Industrial Area, Bengaluru - 560 058, Karnataka, India Tel.: +91 82 9633 6111 E-mail: complianceofficer@ajax-engg.com
ICICI Securities Limited ICICI Venture House, Prabhadevi Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel.: +91 22 6807 7100 E-mail: ajax.ipo@icicisecurities.com Investor Grievance ID: customerservice@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Contact Person: Nikita Chirania/ Abhijit Diwan SEBI Registration No.: INM000011179	Citigroup Global Markets India Private Limited 1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 098, Maharashtra, India Tel.: +91 22 6175 9999 E-mail: ajax.ipo@citi.com Investor Grievance ID: investors.cgmib@citi.com Website: www.online.citibank.com.in/rhtm/citigroup globalbscreen1.html Contact Person: Karan Singh Hundal SEBI Registration No.: INM000010718	JM Financial Limited 7th Floor, Cnergy Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel.: +91 22 6630 3030 E-mail: ajax.ipo@jmf.com Investor Grievance ID: grievance.id@jmf.com Website: www.jmf.com Contact Person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.: INM000010361	Nuvama Wealth Management Limited 801-804, Wing A, Building No 3, Inspire BKC G Block, Bandra Kurla Complex Bandra East, Mumbai - 400 051 Maharashtra, India Tel.: +91 22 4009 4400 E-mail: ajax.ipo@nuvama.com Investor Grievance ID: customerservice.mb@nuvama.com Website: www.nuvama.com Contact Person: Pari Yaya SEBI Registration No.: INM000013004	SBI Capital Markets Limited 1501, 15th Floor, A & B Wing, Parinee Crescenzo Building, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel.: +91 22 4006 9807 E-mail: ajax.ipo@sbcaps.com Investor Grievance ID: investor.relations@sbcaps.com Website: www.sbcaps.com Contact Person: Raghavendra Bhat/ Aditya Deshpande SEBI Registration No.: INM000003531	MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) C-101, 1st Floor, 247 Park Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 Maharashtra, India Tel.: +91 81 0811 4949 E-mail: ajaxengineering.ipo@linkintime.co.in Investor Grievance ID: customerservice.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the RHP, before applying in the Offer. A copy of the RHP is available on website of SEBI, www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of the Company at www.ajax-engg.com and on the websites of the BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, JM Financial Limited, Nuvama Wealth Management Limited and SBI Capital Markets Limited at www.icicisecurities.com, www.online.citibank.com.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.html, www.jmf.com, www.nuvama.com and www.sbcaps.com, respectively.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, the BRLMs and the Registrar to the Offer at www.ajax-engg.com, www.icicisecurities.com, www.online.citibank.com.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.html, www.jmf.com, www.nuvama.com and www.sbcaps.com and www.linkintime.co.in, respectively.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORMS: Bid cum Application Forms can be obtained from the Registered Office of AJAX ENGINEERING LIMITED, Tel.: +91 82 9633 6111; BRLMs : ICICI Securities Limited, Tel.: +91 22 6807 7100; Citigroup Global Markets India Private Limited, Tel.: +91 22 6175 9999; JM Financial Limited, Tel.: +91 22 6630 3030; Nuvama Wealth Management Limited, Tel.: +91 22 4009 4400; SBI Capital Markets Limited, Tel.: +91 22 4006 9807; Syndicate Members: SBICAP Securities Limited, Tel.: +91 22 6931 6204, JM Financial Services Limited, Tel.: +91 22 6136 3400, Investec Capital Services (India) Private Limited, Tel.: +91 22 6849 7400 and Nuvama Wealth Management Limited, Tel.: +91 22 4009 4400 and at the select locations of the Sub-syndicate Members (as given below), SCSBs, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of BSE and NSE and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchanges and SEBI.

Sub-Syndicate Members: Almondz Global Securities Limited, Anand Rathi Share & Stock Brokers Limited, ANS Pvt Limited, Asit C Mehta, Asit C. Mehta Investment Intermediaries Limited, Axis Capital Limited, Centrum Broking Limited, Centrum Wealth Management Ltd, Choice Equity Broking Private Limited, DB (International) Stock Brokers Ltd, Eurekha Stock & Share Brokers Ltd, Finwizard Technology Pvt. Ltd, Globe Capital Markets Ltd, HDFC Securities Limited, IDBI Capital Markets & Securities Limited, IFCI Financial Services Ltd, IIFL Capital Ltd, IIFL Securities Ltd, Jhaveri Securities, JM Financial Services Limited, Jobanputra Fiscal Services Pvt Ltd, Kantilal Chughani Securities Pvt Ltd, Keynote Capital Limited, KJMC Capital Market Services Limited, Kotak Securities Limited, LKP Securities Limited, Inventure Growth & Securities Ltd, Marwadi Shares and Finance Limited, Mobal Oswal Financial Services Limited, Nirmal Bang Securities Pvt. Ltd., Nuvama Wealth Management Limited, Prabhudas Ladhani Pvt Ltd, Pravin Rathi Share & Stock Brokers Limited, Religare Broking Ltd, Religare Securities Ltd, RR Equity Brokers Pvt Ltd, Sharekhani Limited, SMC Global Securities Limited, Symatrix Shares and Stocks (India) Limited, Trade Bulls Securities (P) Ltd and Yes Securities (India) Limited.

Escrow Collection Bank : Axis Bank Limited **Public Offer Account Bank :** ICICI Bank Limited **Refund Bank :** Axis Bank Limited **Sponsor Banks:** Axis Bank Limited and ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

Place: Bengaluru, Karnataka
 Date: February 4, 2025

For AJAX ENGINEERING LIMITED
 On behalf of the Board of Directors
 Sd/-
Shruti Vishwanath Shetty
 Company Secretary and Compliance Officer

AJAX ENGINEERING LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with RoC. The RHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.ajax-engg.com and on the websites of the BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, JM Financial Limited, Nuvama Wealth Management Limited and SBI Capital Markets Limited at www.icicisecurities.com, www.online.citibank.com.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.html, www.jmf.com, www.nuvama.com and www.sbcaps.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "

MOTILAL OSWAL
HOME LOANS

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय- मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमपुरा रोड, सामने परल एस्टी बिल्डिंग, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५, सीएस: २९९८९८९ वेबसाइट: www.motilaloswalhf.com, ईमेल: hqquery@motilaloswal.com

कच्चा सूचना (अचल संपत्ति / ऑ के लिए)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ८ (१) के तहत)

जैसा कि अधोस्ताविका में विनियमित संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (२००२ का ५४) के तहत मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (आपका कर्ज से पर्याप्त होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते, और इसके प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित धारा १३ (१) के तहत प्रदत्त शर्तियों के अंतर्गत में नीचे उल्लिखित विवरणों के अंतर्गत में नीचे उल्लिखित विवरणों के अंतर्गत में उक्त नोटिस की प्रतियां की तारीख से ६० दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आग्रह किया जाता है।

निम्नलिखित कर्जदारों द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, निम्नलिखित कर्जदारों और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोस्ताविका में नीचे उल्लिखित विवरण पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ८ के साथ पठित अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (४) के तहत उक्त प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे बताने वाले संपत्तियों पर कच्चा बंध लगाया है।

क्र. सं.	क्राण अनुबंध सं. / कर्जदार / घर-कर्जदार-गाइड का नाम	मांगे सूचना की तिथि का बकाया	कच्चा बंध की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण
१	LXMOMAYURV221-220597926/ रविश कुमार गारुग / अचल संपत्ति	०७-११-२०२४ सेकरी रु.१०७१६७६/-	३०-०१-२०२४	प्लॉट नंबर ११/२ कृष्णा विहार भेदा हाजीरु लोनी ०० नया मुक्ति केंद्र २०१००७ गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप से जनता को आग्रह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन कर उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अंतर्गत होगा। प्रतिभूति संपत्तियों को विनिश्चित करने के लिए उल्लेख्य समय के संबंध में, कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा १३ की उप-धारा (८) के प्राधान्यों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: उत्तर प्रदेश
दिनांक: ०५.०२.२०२४
अनुवाद में वृत्ति या विनिश्चित होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी (मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड)

16 जनसंख्या | 5 फरवरी, 2025

medanta
ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड
CIN: L8510DL2004PLC128319

पंजीकृत कार्यालय: मेदांता मेडिसिनालिक, ई-18, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024, भारत
निगमित कार्यालय: मेदांता - दि मेडिसिटी, सेक्टर - 38, गुरुग्राम, हरियाणा 122001, भारत
दूरभाष: 91 124 483 4060, ई-मेल: compliance@medanta.org, वेबसाइट: <https://www.medanta.org>

प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगम) निवामवली, 2014 की धारा 13(4) तथा नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार उन्नीस क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगम) निवामवली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) तथा कम्पनी (निगम) के मामले में

वीई इमेक्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U18101DL2006PTC153599) जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता: 74, दरियागंज, नई दिल्ली, दिल्ली-110002 भारत में है, के मामले में

.....आवेदक
एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "य.य.क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 26 दिसम्बर, 2024 को आयोजित साधारण सभा में पाठित विधि प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोर्डंडम ऑफ एग्रीमेंट्स के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक साधारण पत्र द्वारा समर्पित अपनी आपत्ति श्रेणीय (उत्तरी क्षेत्र) गुडविल के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पंजीकृत कार्यालय का पता: 74, दरियागंज, नई दिल्ली, दिल्ली-110002 भारत
कृते, वीई इमेक्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अनुपम कुमार जैन
निदेशक (DIN: 00198479)

तिथि: 05.02.2025
स्थान: नई दिल्ली

SUMMONS FOR PUBLICATION
SUMMONS FOR SETTLEMENT OF ISSUES (0.5, rr. 1, 5.)
BEFORE THE COMMERCIAL COURT AT KASNA, COURT NO-1, GAUTAM BUDH NAGAR ORIGINAL SUIT NO 273 OF 2023

STATE BANK OF INDIA, a body corporate constituted under the State Bank of India Act-1955 having one of its office known as RACPC at New Arya Nagar, Ghaziabad, Distt-Ghaziabad through Ms. Parul Sharma, Manager State Bank of India, Office at New Arya Nagar, Ghaziabad Mobile No-9740349054, Mail I.D. sbi.10049@sbi.co.in, Adhar No-759341968831.

.....PLAINTIFF

VERSUS

1. MRS. USHA RANI W/O LATE MR. BRAHM SINGH R/O HOUSE NO.7 HARSH VIHAR, INDERGARHI, GHAZIABAD
2. MR.GAURAV SINGH S/O LATE MR. BRAHM SINGH R/O HOUSE NO-7, HARSH VIHAR, INDERGARHI, GHAZIABAD
Defendant

Whereas State Bank of India instituted a suit against you for recovery of money. You are hereby summoned to appear in this Court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to the suit, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the 12.02.2025, at 10 O'clock in the Court, to answer the claim; and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defense and to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defense or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defense or claim for set-off or counter-claim, you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement).

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under may hand and the seal of the Court, this day of **01-02-2025**.

MUNSIRIM/READER

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा नौ माह के समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश
(रु. मिलियन में, ₹पीएस छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माह अवधि	समाप्त तिमाही
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से राजस्व	9,434.36	27,610.68	8,364.54
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व)	1,890.68	5,138.19	1,723.65
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक मदों के उपरोक्त)	1,890.68	5,138.19	1,723.65
4	कर उपरोक्त अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक मदों के उपरोक्त)	1,428.58	3,799.40	1,235.41
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय खूबधि हेतु लाभ (कर परचात) तथा अन्य व्यापक आय (कर परचात) से समाविष्ट	1,457.41	3,815.44	1,240.61
6	प्रदत्त समता अंश पूंजी	537.17	537.17	536.85
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित छोड़कर)			
8	आय प्रति अंश (रु. 2/- प्रत्येक का) - मूलभूत / तत्सकृत:	5.32	14.14	4.61
		5.32	14.14	4.60

केन फिन होम्स लिमिटेड
CIN - L85110KA1987PLC008699
प्रथम तल, SCO -2, सैक्टर-9, हुडा मार्केट, करनाल, हरयाणा - 132001 फोन : 0184-2231555, 7625079210
ई-मेल : karnal@canfinhomes.com

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना, परिशिष्ट IV-A [नियम 9 (1) के परतुक देखें]

वित्तीय अस्थिरता का प्रतिपक्षिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 9 (1) के परतुक के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना।

एतद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(री) तथा गारंट(री) को सूचना दी जाती है कि प्रत्येक लेनदार के पास प्रभारित निम्नलिखित अचल संपत्तियाँ, जिसका भौतिक कच्चा हित केन फिन होम्स लिमिटेड, करनाल शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री जसपाल शिरड एवं जसपाल शिरड पुत्र श्री लाल शिड (कर्जदार) एवं श्री उमेश पुत्र श्री खारती लाल (गारंट) की तरफ से केन फिन होम्स लिमिटेड की 04.02.2025 तक बकाया राशि रु. 35,30,102/- (रुपये बत्तीस लाख तीस हजार एक सौ दो मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि को सूचना के लिए विनियम 24.02.2024 को "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहाँ है" आधार पर देवी जाएगी। आवेदन मूल्य रु. 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) तथा ब्याज राशि जमा रु. 80,000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र) होगी।

अचल संपत्ति का सक्षिप्त विवरण दीजिए
124.43 वर्ग गज के प्लॉट नंबर 323 पर स्थित सभी, खत्रियन मोहल्ला, जूडला गेट, करनाल, हरियाणा-132001 सीमाएं: उत्तर: हरपू लाल का घर दक्षिण: सतपाल पूर्व: जयमगवान का घर पश्चिम: सेवर

भार: मृत्यु
बिक्री के विस्तृत नियम और हार्त केन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx>), उपलब्ध करवाई गई है। ई-निवामी में भाग लेने के लिए लिंक <https://sarfaesi.auctiontngier.net>

दिनांक : 04.02.2025 स्थान : करनाल प्राधिकृत अधिकारी केन फिन होम्स लि.

SUMMONS FOR PUBLICATION
SUMMONS FOR SETTLEMENT OF ISSUES-1 (0.5, rr. 1, 5.)
BEFORE THE COMMERCIAL COURT AT KASNA, COURT NO-1, G. B. NAGAR ORIGINAL SUIT NO 625 OF 2016.

STATE BANK OF INDIA, a body corporate constituted under the State Bank of India Act 1955 having one of its office AS RACPC (Stressed Assets Resolution Centre) at New Arya Nagar, Ghaziabad, Distt-Ghaziabad.

.....PLAINTIFF

VERSUS

1. Ms. Geeta W/o Sh. Shyam Singh Nagar (borrower) R/O Flat No. P-3, Pooavnchal Silver City Tower No-6 Greater Noida. And Also At House No-57/85, Imaliyaka, Greater Noida.
2. Sh. Shyam Singh Nagar S/o Sh.rajat Mohan (guarantor) R/O Flat No. P-3, pooavnchal Silver City Tower No-6,greater Noida. Also at: Shop No.53, Block-04, Ganga Shopping Complex, Sector-29, Noida
Defendant

Whereas State Bank of India instituted a suit against you for recovery of money. You are hereby summoned to appear in this Court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to the suit, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the 12.02.2025, at 10 O'clock in the Court, to answer the claim; and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defense and to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defense or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defense or claim for set-off or counter-claim, you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement).

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under may hand and the seal of the Court, this day of **01-02-2025**.

MUNSIRIM/READER

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा नौ माह के एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश
(रु. मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माह अवधि	समाप्त तिमाही
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से राजस्व	6,244.04	19,004.59	5,648.40
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व)	1,323.10	4,056.62	1,208.72
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक मदों के उपरोक्त)	1,323.10	4,056.62	1,208.72
4	कर उपरोक्त अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक मदों के उपरोक्त)	993.05	3,000.55	873.44
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ (कर परचात) तथा अन्य व्यापक आय (कर परचात) से समाविष्ट)	1,019.89	3,015.51	877.72

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

HDFC BANK

शाखा : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, आंलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-67, फोन : 011-41596676 / 568, कॉर्पोरेट पहचान संख्या : एल65920एमएच1994पीएलसी080618, वेबसाइट : www.hdfcbank.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई-बिडिंग के माध्यम से बिक्री)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

कॉलम (क) में वर्णित कर्जदार (री) और गारंट (री) और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉलम (ग) में दर्शाई गई प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित अचल संपत्ति (यों) जिनका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (इससे पूर्व एचडीएफसी लिमिटेड जिसका माननीय एनसीएलटी-मुंबई के 17 मार्च 2023 दिनांकित आदेश से अनुमोदित समामेलन की एक योजना के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है) (एचडीएफसी), प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कॉलम (घ) में वर्णित अनुसार रचनात्मक/भौतिक कच्चा लिया था, उन्हें नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार "जैसा है जहाँ है", "जो है जैसा है" एवं "जो भी वहाँ है" आधार पर बेचा जाएगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत कॉलम (क) में वर्णित कर्जदार/बंधकर्ता (ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक (कों), प्रशासक (कों), संबंधित कर्जदार (री)/बंधकर्ता (ओं) (अब मृतक) के उत्तराधिकारी और वारिस, जैसा भी मामला हो, को एतद्वारा सूचित किया जाता है।

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया एचडीएफसी प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट, यानी, www.HDFCBANK.Com पर दिये गये लिंक को देखें।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, आंलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-67, फोन : 011-41596676 / 568, कॉर्पोरेट पहचान संख्या : एल65920एमएच1994पीएलसी080618, वेबसाइट : www.hdfcbank.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई-बिडिंग के माध्यम से बिक्री)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

कॉलम (क) में वर्णित कर्जदार (री) और गारंट (री) और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉलम (ग) में दर्शाई गई प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित अचल संपत्ति (यों) जिनका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (इससे पूर्व एचडीएफसी लिमिटेड जिसका माननीय एनसीएलटी-मुंबई के 17 मार्च 2023 दिनांकित आदेश से अनुमोदित समामेलन की एक योजना के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है) (एचडीएफसी), प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कॉलम (घ) में वर्णित अनुसार रचनात्मक/भौतिक कच्चा लिया था, उन्हें नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार "जैसा है जहाँ है", "जो है जैसा है" एवं "जो भी वहाँ है" आधार पर बेचा जाएगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत कॉलम (क) में वर्णित कर्जदार/बंधकर्ता (ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक (कों), प्रशासक (कों), संबंधित कर्जदार (री)/बंधकर्ता (ओं) (अब मृतक) के उत्तराधिकारी और वारिस, जैसा भी मामला हो, को एतद्वारा सूचित किया जाता है।

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया एचडीएफसी प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट, यानी, www.HDFCBANK.Com पर दिये गये लिंक को देखें।

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)
कर्जदार (री)/गारंटरी का नाम	वसूल की जाने वाली बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण) (रु)*	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	अभियोग का प्रकार	निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (रु.)	बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि	अंतिम जमा राशि (रु.)	बोली बढ़ोतरी दर (रु.)	नीलामी की तिथि एवं समय
1) श्री जय प्रकाश	31-मार्च-2023* को बकाया रु. 10,52,919/- (दस लाख बावन हजार नौ सौ उन्नीस रुपये मात्र)	फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट संख्या यूजी-2, ऊपरी मूलत (एलआईजी), ऊपरी मूलत का पिछला भाग बिना छत के अधिकार के), जिसमें 1 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 रसोईघर, 1 शौचालय और 1 बालकनी है, जो प्लॉट संख्या ए1-45, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन 2, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर (लगभग) है के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण शामिल है।	भौतिक अभियोग	13-फरवरी-2025 प्रातः 11:00 बजे से अपठ 3:00 बजे तक	रु. 12,82,500/- (बारह लाख बयासी हजार पांच सौ रुपये मात्र)	07-मार्च-2025 सायं 4:00 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)	10-मार्च-2025 प्रातः 10:30 से 11:30 बजे तक
2) श्री बजरंग शर्मा और श्रीमती प्रीति शर्मा	31-जुलाई-2024* को बकाया रु. 67,97,625/- (सड़सठ लाख सत्तानवे हजार छह सौ पच्चीस रुपये मात्र)	छत के अधिकार सहित पूरी तीसरी मंजिल, जिसमें 2 कमरे, 1 रसोईघर, 1 ड्राइंग रूम, 2 शौचालय और 1 बालकनी है, जो रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली के लेआउट प्लान के अंतर्गत संपत्ति संख्या 73, ब्लॉक-सी, पॉकट-9, सेक्टर-16 के भाग में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मीटर (लगभग) है और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण शामिल है।	भौतिक अभियोग	14-फरवरी-2025 प्रातः 11:00 बजे से अपठ 3:00 बजे तक	रु. 66,00,000/- (छियासठ लाख रुपये मात्र)	07-मार्च-2025 सायं 4:00 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)	10-मार्च-2025 प्रातः 10:30 से 11:30 बजे तक
3) श्री अभिषेक	30-नवम्बर-2021* को बकाया रु. 23,04,235/- (तेईस लाख चार हजार दो सौ पैंतीस रुपये मात्र)	प्रथम तल, प्लॉट संख्या 19 पर निर्मित, जिसमें 2 कमरे, 1 रसोईघर, शौचालय और स्नानघर है, खसरा संख्या 834, संजीवनी एस्टेट कॉलोनी, मोदीनगर, गांव सीकरा खुर्द, परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 108.50 वर्ग मीटर (लगभग) है के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण शामिल है।	भौतिक अभियोग	17-फरवरी-2025 प्रातः 11:00 बजे से अपठ 3:00 बजे तक	रु. 23,60,000/- (तेईस लाख साठ हजार रुपये मात्र)	07-मार्च-2025 सायं 4:00 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)	10-मार्च-2025 प्रातः 10:30 से 11:30 बजे तक
4) श्रीमती सविता यादव	31-अक्टूबर-2018* को बकाया रु. 13,05,340/- (तेरह लाख पांच हजार तीस सौ घालीस रुपये मात्र)	ब्रह्मपुत्र ब्लॉक में रो हाउस यूनिट संख्या "ब्रह्मपुत्र-14", जिसमें 3 कमरे, 1 रसोईघर, 1 बाथरूम और 1 शौचालय है, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर तहसील और जिले के अलीपुर गिझीरी गांव में "जीवन गीत" में स्थित परियोजना में 51.70 वर्ग मीटर भूमि के मूखंड पर निर्मित है, जिसका सुपर निर्मित क्षेत्रफल 38.26 वर्ग मीटर (लगभग) है और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण शामिल है।	भौतिक अभियोग	18-फरवरी-2025 प्रातः 11:00 बजे से अपठ 3:00 बजे तक	रु. 16,00,000/- (सोलह लाख रुपये मात्र)	07-मार्च-2025 सायं 4:00 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)	10-मार्च-2025 प्रातः 10:30 से 11:30 बजे तक
5) श्री अमित कुमार पांडे और श्री प्रेम प्रकाश पांडे	30-अप्रैल-2023* को बकाया रु. 23,21,123/- (तेईस लाख इक्कीस हजार एक सौ तेईस रुपये मात्र)	फ्रीहोल्ड आवासीय एचआईजी प्लॉट संख्या-5, मूलत, पीछे की ओर जिसमें 1 ड्राइंग रूम/ड्राइनिंग, 3 बेडरूम, 1 रसोईघर, 2 शौचालय और 2 बालकनी हैं, जो प्लॉट संख्या 39, आवासीय कॉलोनी शालोमार गार्डन एक्सटेंशन - 1, हदबस्त, ग्राम पसोडा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 116.12 वर्ग मीटर (लगभग) है के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण शामिल है।	भौतिक अभियोग	19-फरवरी-2025 प्रातः 11:00 बजे से अपठ 3:00 बजे तक	रु. 47,00,000/- (सैंतालीस लाख रुपये मात्र)	07-मार्च-2025 सायं 4:00 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)	10-मार्च-2025 प्रातः 10:30 से 11:30 बजे तक
6) श्री निदिन शोखर पांडे और श्रीमती तनु पांडे	31-अगस्त-2022* को बकाया रु. 12,30,073/- (बारह लाख तीस हजार और तिहत्तर रुपये मात्र)	आवासीय प्लॉट संख्या एफ3, एलआईजी, प्रथम तल, पिछला भाग (छत के अधिकार के बिना) जिसमें 1 बेडरूम, 1 ड्राइंग/ड्राइनिंग रूम, 1 रसोई, 1 शौचालय/बाथरूम और 1 बालकनी है, जो प्लॉट संख्या सी-1/63, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-2, हदबस्त ग्राम ब्रह्मपुर, भोपुरा परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर (लगभग) है के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण शामिल है।	भौतिक अभियोग	20-फरवरी-2025 प्रातः 11:00 बजे से अपठ 3:00 बजे तक	रु. 11,83,000/- (ग्यारह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र)	07-मार्च-2025 सायं 4:00 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)	10-मार्च-2025 प्रातः 11:30 से 12:30 बजे तक
7) कर्नल राकेश कुमार	31-अक्टूबर-2022* को बकाया रु. 58,19,930/- (अठ्ठान लाख अठारह हजार नौ सौ तीस रुपये मात्र)	आवासीय अपार्टमेंट संख्या के-404, धौधी मंजिल पर जिसमें एक ड्राइंग-कम ड्राइनिंग रूम, तीन बेडरूम, तीन शौचालय, एक रसोईघर और बालकनी है, यह युप हाउसिंग प्लॉट संख्या 6, ब्लॉक जे-1, "क्रॉसिंग रिपब्लिक" में युप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बना है जिसे "गोल्ड ग्रीन्स" के नाम से जाना जाता है, यह डुंडाहेरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका सुपर एरिया 160.32 वर्ग मीटर (लगभग) है के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा शामिल है।	भौतिक अभियोग	21-फरवरी-2025 प्रातः 11:00 बजे से अपठ 3:00 बजे तक	रु. 62,00,000/- (बासठ लाख रुपये मात्र)	07-मार्च-2025 सायं 4:00 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)	10-मार्च-2025 प्रातः 11:30 से 12:30 बजे तक

*भुगतान खरीद/या वसूली तक लागू अतिरिक्त ब्याज, लागत, व्यय और शुल्क के साथ।

संभावित खरीदारों/बोलीदाताओं को बोली जमा करने से पहले बिक्री/सोसाइटी या किसी अन्य वैधानिक/विजली/पानी/संपत्ति कर/अन्य बकाया आदि के लिए बकाया राशि का स्वतंत्र रूप से पता लगाना होगा और उक्त बकाया, यदि कोई हो, तो सफल खरीदारों/बोलीदाताओं द्वारा बुकाया/बुकाया जावे है और एचडीएफसी बैंक किसी भी तरह का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

एचडीएफसी/एचडीएफसी का अधिकृत अधिकारी सफल बोलीदाताओं/खरीदारों द्वारा बाद में जानकारी की अनुपलब्धता या अन्याय होने वाले किसी भी नुकसान के लिए किसी भी तरह की जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करता है। सफल निविदाकार / खरीदार किसी भी आधार पर एचडीएफसी को खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकते। इसलिए, संभावित खरीदारों/बोलीदाताओं के हित में होगा कि वे निविदाएं जमा करने और/या प्रस्ताव देने से पहले उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से खुद को अवगत करा लें जो उनके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। लिंबित मुकदमे या किसी अन्य जानकारी के बारे में विवरण के लिए, कृपया इस बिक्री नोटिस के नियम और शर्तों को देखें।

मेसर्स मेटेक्स नेट प्राइवेट लिमिटेड (ई-निविदा प्रक्रिया) से नीलामी में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या निविदा दस्तावेज प्राप्त करने में किसी सहायता और किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के लिए कृपया मेसर्स मेटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री विकास कुमार-9650387768, श्री विजय - 7200538774, ई-मेल: